

तुरंत रिलीज के लिए

## काउंसलर ढिल्लों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के निष्कर्षों के बाद कोर्ट ने, काउंसलर ढिल्लों को इंटीग्रिटी कमिशनर और सिटी के लिए कोर्ट के खर्चों का भुगतान किए जाने का आदेश दिया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 जून, 2021) – आज, ढिल्लों बनाम द कार्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन (Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton) के केस में, इंटीग्रिटी कमिशनर (Integrity Commissioner) के द्वारा काउंसलर ढिल्लों (Councillor Dhillon) के खिलाफ गलत आचरण के आरोपों के निष्कर्षों और काउंसिल के द्वारा उन निष्कर्षों को स्वीकार करने के संबंध में, ओनटैरियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस – डिवीजनल कोर्ट (Ontario Superior Court of Justice – Divisional Court) ने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और सिटी के इंटीग्रिटी कमिशनर के पक्ष में फैसला दिया और काउंसलर ढिल्लों के द्वारा दोनों को खर्चा दिए जाने का आदेश दिया।

सिटी, काउंसलर ढिल्लों के खिलाफ इंटीग्रिटी कमिशनर की रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों की पुष्टि करते हुए, डिवीजनल कोर्ट के फैसले से खुश है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि, सिटी और इंटीग्रिटी कमिशनर दोनों को, कानूनी प्रक्रिया से संबंधित खर्चों का 20,000.00 डॉलर दिया जाए।

इंटीग्रिटी कमिशनर की रिपोर्ट मिलने के बाद, कोर्ट के निष्कर्ष, काउंसिल की कार्रवाईयों और फैसलों की हिमायत करते हैं।

कोर्ट ने काउंसिल को इस पर विचार करने की सिफारिश की है कि, काउंसलर ढिल्लों जनता के साथ केवल सिटी का आधिकारिक ईमेल पता प्रयोग करते हुए ही बातचीत कर पाएंगे। काउंसिल इस सिफारिश पर जल्दी ही विचार कर सकती है।

-30-

**लिंक:** [ढिल्लों बनाम द कार्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन \(Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton\)](#)  
[ओनटैरियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस – डिवीजनल कोर्ट का फैसला \(Ontario Superior Court of Justice – Divisional Court Ruling\)](#)  
[11 जून, 2021 \(June 11, 2021\)](#)

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)